



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 8]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013

का.आ. 8(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के 73.900 कि.मी. से 136.670 कि.मी. तक के भू-खण्ड का बाइपास सहित (सेलम-उलुन्दूरपेट सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस (21) दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष जिला राजस्व अधिकारी, सेलम, तमिलनाडु, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 के 73.900 कि. मी 136.670 कि. मी तक (सेलम - उलुन्दुरपेट् सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | विलुपुरम | 1. कल्लाकुरिच्छी | (1) रायाप्पनुर | 305/6ए2ए | निजी | शुष्क | 380 |
| | | | | 305/6बी2ए | निजी | शुष्क | 190 |
| | | | | 305/6बी3ए | निजी | शुष्क | 610 |
| | | | | 310/1 | सरकारी | पोरमबोक (ओडाई) | 1298 |
| | | | | 310/2ए | निजी | शुष्क | 836 |
| | | | | 310/3बी1 | निजी | शुष्क | 430 |
| | | | | 339/2ई1 | निजी | शुष्क | 240 |
| | | | | 339/3ए | निजी | शुष्क | 255 |
| | | | | 341/9सी1 | निजी | शुष्क | 153 |
| | | | | 341/8के1 | निजी | शुष्क | 341 |
| | | | | 341/8एल1 | निजी | शुष्क | 267 |
| | | | | 341/8एम1 | निजी | शुष्क | 259 |
| | | | | 341/8एफ1 | निजी | शुष्क | 63 |
| | | | | 342 | सरकारी | पोरमबोक (ओडाई) | 33 |
| | | | (2) अग्रहरावासुदेवनूर | 80/10ए1 | निजी | शुष्क | 12 |
| | | | | 80/10ए2 | निजी | शुष्क | 658 |
| | | | | 80/35 | निजी | शुष्क | 20 |
| | | | | 80/10ए3 | निजी | शुष्क | 410 |
| | | | | 80/10बी | निजी | शुष्क | 786 |
| | | | | 80/14ए | निजी | शुष्क | 17 |
| | | | (3) पुंडी | 44/2 | सरकारी | पोरमबोक (रास्ता) | 85 |
| | | | | 57/1बी1बी | निजी | शुष्क | 56 |
| | | | | 57/1सी2 | निजी | शुष्क | 11 |
| | | | | 57/3बी | निजी | शुष्क | 34 |
| | | | | 57/7बी | निजी | शुष्क | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-----------|----------|--------|----------------------|------|
| | | | | 57/11बी | निजी | शुष्क | 50 |
| | | | | 57/12बी | निजी | शुष्क | 18 |
| | | | | 57/14 | निजी | शुष्क | 18 |
| | | | | 57/15 | निजी | शुष्क | 50 |
| | | | | 57/16 | निजी | शुष्क | 52 |
| | | | (4) इंदली | 3/1ए2 | निजी | शुष्क | 60 |
| | | | | 3/1बी1बी | निजी | शुष्क | 81 |
| | | | | 3/1बी2बी | निजी | शुष्क | 111 |
| | | | | 3/1बी3बी | निजी | शुष्क | 7 |
| | | | | 3/2बी | निजी | शुष्क | 65 |
| | | | | 72/2ए1 | निजी | शुष्क | 43 |
| | | | | 72/2बी1 | निजी | शुष्क | 566 |
| | | | | 72/3 | सरकारी | पोरमबोक (कुलाम) | 1630 |
| | | | | 74/7ए | निजी | नम | 216 |
| | | | | 74/8ए | निजी | नम | 24 |
| | | | | 74/9 | निजी | नम | 23 |
| | | | | 74/10 | निजी | नम | 98 |
| | | | | 74/11ए | निजी | नम | 152 |
| | | | | 74/12 | सरकारी | पोरमबोक (वैक्काल) | 50 |
| | | | | 74/13ए | निजी | नम | 74 |
| | | | | 74/14ए | निजी | नम | 57 |
| | | | | 74/15ए | निजी | नम | 109 |
| | | | | 88/8ए | निजी | नम | 21 |
| | | | | 88/9ए | निजी | नम | 64 |
| | | | | 89/1ए | निजी | नम | 40 |
| | | | | 89/2ए | निजी | नम | 106 |
| | | | | 89/3ए | निजी | नम | 410 |
| | | | | 90/3 | निजी | नम | 76 |
| | | | | 90/4ए | निजी | नम | 172 |
| | | | | 90/6ए | निजी | नम | 173 |
| | | | | 90/7ए | निजी | नम | 59 |
| | | | | 90/8ए | निजी | नम | 88 |
| | | | | 96/1ए | निजी | शुष्क | 134 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------|------------------|------------|--------|--------------------|-----|
| | | | | 96/2ए | निजी | शुष्क | 50 |
| | | | | 97/6बी1 | निजी | नम | 15 |
| | | | | 97/7 | सरकारी | पोरमबोक (कोविल) | 200 |
| | | | | 97/8ए | निजी | नम | 114 |
| | | | | 97/8बी | निजी | नम | 84 |
| | | | | 105/1ए2 | निजी | नम | 232 |
| | | | | 106/1बी | निजी | शुष्क | 45 |
| | | | | 106/2ए2बी | निजी | शुष्क | 140 |
| | | | | 106/2बी2बी | निजी | शुष्क | 240 |
| | | | | 106/2सी1बी | निजी | शुष्क | 385 |
| | | | | 106/3ए2 | निजी | शुष्क | 75 |
| | | | (5) परीदीविमंगलम | 199/1 | निजी | नम | 244 |
| | | 2. उलुन्दुरपेट्टई | (1) मुलासमुद्रम | 160/5ए | निजी | शुष्क | 92 |
| | | | | 161/1 | निजी | शुष्क | 35 |
| | | | | 161/2ए | निजी | शुष्क | 80 |
| | | | (2) ओलयानूर | 15/5बी | निजी | शुष्क | 110 |
| | | | | 88/2ए | निजी | शुष्क | 58 |
| | | | (3) वेल्लईयूर | 266/3ए | निजी | शुष्क | 48 |
| | | | | 300/3ए | निजी | शुष्क | 93 |
| | | | | 300/4ए | निजी | शुष्क | 45 |
| | | | | 300/5ए | निजी | शुष्क | 52 |
| | | | | 300/6ए | निजी | शुष्क | 49 |
| | | | (4) ए. कुमरामलम | 85/1सी1बी | निजी | शुष्क | 200 |
| | | | | 85/2बी | निजी | शुष्क | 75 |
| | | | | 85/3बी | निजी | शुष्क | 62 |
| | | | | 85/4बी | निजी | शुष्क | 35 |
| | | | | 85/5बी | निजी | शुष्क | 61 |
| | | | | 85/6बी | निजी | शुष्क | 40 |
| | | | | 85/7बी | निजी | शुष्क | 25 |
| | | | (5) पिदागम | 697/17 | निजी | घर की दिशा | 35 |

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/11012/50/पीआईयू-सेलम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2013

S.O. 8(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section- 3A of the National Highways Act 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening four- laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.68 including the bypass, on the stretch of land from Km 73+900 to Km 136+670 (Salem-Ulundurpet section) in District Villupuram, in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land, may within twenty one (21) days from the date of publication of this notification, in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Special District Revenue Officer, Salem, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this Notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the said Competent Authority.

12 9/13-2

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km 73+900 to km 136+670 of (Salem-Ulunderpet Section) National Highways No-68 in the District of Villupuram in the State of Tamil Nadu.

| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area in (square meters) |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Villuppuram | (1) Kallakurichchi | (1) Rayappanur | 305/6A2A | Private | Dry | 380 |
| | | | | 305/6B2A | Private | Dry | 190 |
| | | | | 305/6B3A | Private | Dry | 610 |
| | | | | 310/1 | Government | Poramboke (Odai) | 1298 |
| | | | | 310/2A | Private | Dry | 836 |
| | | | | 310/3B1 | Private | Dry | 430 |
| | | | | 339/2E1 | Private | Dry | 240 |
| | | | | 339/3A | Private | Dry | 255 |
| | | | | 341/9C1 | Private | Dry | 153 |
| | | | | 341/8K1 | Private | Dry | 341 |
| | | | | 341/8L1 | Private | Dry | 267 |
| | | | | 341/8M1 | Private | Dry | 259 |
| | | | | 341/8F1 | Private | Dry | 63 |
| | | | | 342 | Government | Poramboke (Odai) | 33 |
| | | | (2) Agraharavasudevanur | 80/10A1 | Private | Dry | 12 |
| | | | | 80/10A2 | Private | Dry | 658 |
| | | | | 80/35 | Private | Dry | 20 |
| | | | | 80/10A3 | Private | Dry | 410 |
| | | | | 80/10B | Private | Dry | 786 |
| | | | | 80/14A | Private | Dry | 17 |
| | | | (3) Pundi | 44/2 | Government | Poramboke (Pathway) | 85 |
| | | | | 57/1B1B | Private | Dry | 56 |
| | | | | 57/1C2 | Private | Dry | 11 |
| | | | | 57/3B | Private | Dry | 34 |
| | | | | 57/7B | Private | Dry | 25 |
| | | | | 57/11B | Private | Dry | 50 |
| | | | | 57/12B | Private | Dry | 18 |
| | | | | 57/14 | Private | Dry | 18 |
| | | | | 57/15 | Private | Dry | 50 |
| | | | | 57/16 | Private | Dry | 52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|------------|--------|------------|------------------------|------|
| | | | (4) Indali | 3/1A2 | Private | Dry | 60 |
| | | | | 3/1B1B | Private | Dry | 81 |
| | | | | 3/1B2B | Private | Dry | 111 |
| | | | | 3/1B3B | Private | Dry | 7 |
| | | | | 3/2B | Private | Dry | 65 |
| | | | | 72/2A1 | Private | Dry | 43 |
| | | | | 72/2B1 | Private | Dry | 566 |
| | | | | 72/3 | Government | Poramboke (Kulam) | 1630 |
| | | | | 74/7A | Private | Wet | 216 |
| | | | | 74/8A | Private | Wet | 24 |
| | | | | 74/9 | Private | Wet | 23 |
| | | | | 74/10 | Private | Wet | 98 |
| | | | | 74/11A | Private | Wet | 152 |
| | | | | 74/12 | Government | Poramboke (Vaikkal) | 50 |
| | | | | 74/13A | Private | Wet | 74 |
| | | | | 74/14A | Private | Wet | 57 |
| | | | | 74/15A | Private | Wet | 109 |
| | | | | 88/8A | Private | Wet | 21 |
| | | | | 88/9A | Private | Wet | 64 |
| | | | | 89/1A | Private | Wet | 40 |
| | | | | 89/2A | Private | Wet | 106 |
| | | | | 89/3A | Private | Wet | 410 |
| | | | | 90/3 | Private | Wet | 76 |
| | | | | 90/4A | Private | Wet | 172 |
| | | | | 90/6A | Private | Wet | 173 |
| | | | | 90/7A | Private | Wet | 59 |
| | | | | 90/8A | Private | Wet | 88 |
| | | | | 96/1A | Private | Dry | 134 |
| | | | | 96/2A | Private | Dry | 50 |
| | | | | 97/6B1 | Private | Wet | 15 |
| | | | | 97/7 | Government | Poramboke (Kovil) | 200 |
| | | | | 97/8A | Private | Wet | 114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------|----------------------|----------|---------|------------|-----|
| | | | | 97/8B | Private | Wet | 84 |
| | | | | 105/1A2 | Private | Wet | 232 |
| | | | | 106/1B | Private | Dry | 45 |
| | | | | 106/2A2B | Private | Dry | 140 |
| | | | | 106/2B2B | Private | Dry | 240 |
| | | | | 106/2C1B | Private | Dry | 385 |
| | | | | 106/3A2 | Private | Dry | 75 |
| | | | (5) Pridivimangalam | 199/1 | Private | Wet | 244 |
| | | (2) Ulundurpettai | (1) Mulasamudram | 160/5A | Private | Dry | 92 |
| | | | | 161/1 | Private | Dry | 35 |
| | | | | 161/2A | Private | Dry | 80 |
| | | | (2) Olaiyanur | 15/5B | Private | Dry | 110 |
| | | | | 88/2A | Private | Dry | 58 |
| | | | (3) Vellaiyur | 266/3A | Private | Dry | 48 |
| | | | | 300/3A | Private | Dry | 93 |
| | | | | 300/4A | Private | Dry | 45 |
| | | | | 300/5A | Private | Dry | 52 |
| | | | | 300/6A | Private | Dry | 49 |
| | | | (4) A.Kumaramangalam | 85/1C1B | Private | Dry | 200 |
| | | | | 85/2B | Private | Dry | 75 |
| | | | | 85/3B | Private | Dry | 62 |
| | | | | 85/4B | Private | Dry | 35 |
| | | | | 85/5B | Private | Dry | 61 |
| | | | | 85/6B | Private | Dry | 40 |
| | | | | 85/7B | Private | Dry | 25 |
| | | | (5) Pidagam | 697/17 | Private | House Site | 35 |

[F. No. NHAI/BOT/11012/50/PIU-Salem]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.